



## Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 अगस्त, 2023

### राष्ट्रीय पांडुलिपि विधायक, 2023

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वरासत इसकी प्राचीन पांडुलिपियों में समाहित है, जो अमूल्य ज्ञान का भण्डार हैं और अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं। हालाँकि, इनमें से कई पांडुलिपियों का देश के भीतर और बाहर खो जाना अथवा नष्ट हो जाना चिंता का विषय बन गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय पांडुलिपि विधायक, 2023 के माध्यम से इस समस्या का हल करने की तैयारी में जुटी हुई है।

- इस विधायक का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में भारतीय वरासत ग्रंथों का दस्तावेज़ीकरण और सूचीबद्ध करना, सटीक जानकारी बनाए रखना और परामर्श शर्तें नरिदृष्टि करना है।
- यह विधायक 10 सदस्यों वाले राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण (National Manuscripts Authority- NMA) की स्थापना का प्रस्ताव रखता है, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत मंत्रि द्वारा की जायेगी, साथ ही इसमें संस्कृत, वित्त, शिक्षा और नजी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
  - यह प्राधिकरण पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण, संपादन और प्रकाशन की देखरेख का कार्य करेगा।
  - इस प्राधिकरण के पास पांडुलिपि तक पहुँच को वनियमिति करने, चोरी की जाँच करने और क्षति अथवा चोरी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चिती करने के लिये सविलि कोर्ट की शक्तियाँ होंगी।
  - यह एक विशेषज्ञ समिति द्वारा नरिधारति मुआवजे के साथ, कसिी सामग्री के महत्त्व के आधार पर नजीी मालिकों से पांडुलिपियाँ हासलि कर सकता है।
- पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते, काग, कपड़े और छाल जैसी सामग्रियों पर संस्कृत तथा कषेत्रीय भाषाओं में लिखी गई हस्तलिखित रचनाएँ होती हैं, जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती हैं।
- भारत में 80 प्राचीन लिपियों में लिखित लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियाँ मलिी हैं, जनिके संरक्षण की ज़मिमेदारी राष्ट्रीय पांडुलिपि भशिण की है।
  - बखशाली पांडुलिपि, तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक प्राचीन गणतीय पाठ है जिसे से शून्य के प्रारंभिक उपयोग का पता चलता है।

### भारत की 'ओडीओपी वॉल'

हाल ही में एक ज़लिा एक उत्पाद (ODOP) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिण (DAY-NRLM) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से 'ओडीओपी वॉल' पेश की गई है। यह पहल विश्व स्तर पर भारत की असाधारण शलिप वरासत के अनुरूप है।

- 'ओडीओपी वॉल' का उद्देश्य दुनिया भर में भारत की शलिप वशिषि्टता को प्रदर्शति करना है।
- ओडीओपी पहल संतुलति कषेत्रीय वकिस में वृद्धि, प्रत्येक ज़लि से एक अद्वितीय उत्पाद को बढ़ावा देने पर केंद्रति है।
- इसमें हथकरघा, हस्तशलिप और कृषि उत्पादों सहति विविधि प्रकार के उत्पाद शामिल हैं।
- यह सहयोग सांस्कृतिक महत्त्व और अद्वितीय गुणों वाले उत्पादों की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है।
- यह बकिरी को बढ़ावा देता है और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा स्वदेशी शलिप का समर्थन करता है।

और पढ़ें... [एक ज़लिा एक उत्पाद](#)

### अपकेंद्रीय बल

अपकेंद्रीय बल, एक बाहरी बल जो कसिी घुमावदार या वृत्ताकार पथ पर गति कर रही कसिी वस्तु द्वारा अनुभव कयिा जाता है, यह वास्तविक बल नहीं है बल्कि जड़ता का परिणाम है, जो कसिी वस्तु की गति की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति है।

- यह कथति बल तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर चलती है, जो हमेशा घूर्णन के केंद्र से दूर होती है।
- हालाँकि यह गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व जैसा कोई वास्तविक बल नहीं है, यह कसिी वस्तु की दशिा बदलने के प्रतिरोध से उत्पन्न होता है।
- यह सदिधांत विभिन्न कषेत्रों में सरल अनुप्रयोग में पाया जाता है। [फारमास्युटिकलस](#), [डेयरी](#) और [परमाणु ऊर्जा](#) जैसे उद्योग इस प्रतिरोध का फायदा उठाने के लिये अपकेंद्रण यंत्र का उपयोग करते हैं।

- वॉशिंग मशीन, अपकेंद्र बल का उपयोग करके कपड़ों से पानी निकालकर स्पनि चक्र में सुखाती है।

## वधियगरि

17 अगस्त, 2023 को भारत के राष्ट्रपति कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगट, वधियगरि का शुभारंभ करेंगे।

- यह जहाज़, [प्रोजेक्ट 17A फ्रिगट](#) शृंखला का छठा जहाज़ है, जिसका नाम कर्नाटक पर्वत शृंखला से लिया गया है।
- यह फ्रिगट प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगट्स (शिविलिक क्लास) का एक विकसित रूप है, जिसमें उन्नत स्टीलथ क्षमताएँ, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियाँ शामिल हैं।
  - तकनीकी रूप से परिष्कृत वधियगरि अपने पूर्ववर्ती, पूर्व INS वधियगरि, लॉन्डर क्लास ASW फ्रिगट को उत्कृष्टता प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों के लिये महत्वपूर्ण 75% उपकरण तथा सॉफ्टवेयर और सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित स्वदेशी फर्मों से संबद्ध है।

और पढ़ें... [प्रोजेक्ट 17A](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-14-august-2023>

